



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधरण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 1975/फाल्गुन 14, 1896

No. 47] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 1975/PHALGUNA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 5th March 1975

No. DRAWBACK/PN-40/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1975:—

For sub-serial No. 1927 and 1929 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

| Sub-S. No. | Description of goods | Rate of drawback |
|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1927 | Spectacle frames/spectacles and sun goggles made from cellulose acetate plastic in any form, with or without lenses/glare glasses, whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets, shields joints, wires in sides, rolled gold/gold filled/gold plated wire and/or components aluminium anodised sides, nose pads, tips etc. | Rs. 5 80 (Rupees five and paise eighty only) per Dozen. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Provided that it is proved to the satisfaction of the Collector of Customs that the spectacles/pectacle frames exported are genuine spectacles, spectacle frames or goggles of gents and ladies sizes | | |
| 1929 | All other plastic spectacle frames spectacles goggles not elsewhere specified | |
| | | Rs. 200 (hundred and paise ninety five only) per kg |

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और वीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएँ

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-40 75 —सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र अमाधायण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1 दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित मारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित सशोधन करती है—

उपक्रमांक 1927 और 1929 तथा तत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा —

| उप | माल का विवरण | प्रतिअदायगी की दर |
|---------|---|--|
| क्रमांक | | |
| 1927 | लेन्स ग्लेयर ग्लास सहित या उसके बिना किसी भी रूप में सेचुलोस एसिटेड प्लास्टिक से बने चश्मे के फ्रेम/चश्में और धूप के चश्मे, चाहे वे निम्नलिखित में सामग्री से किसी में युक्त हों अथवा नहीं—कब्जे, रिबट/शील्ड ज्वाइट पार्श्वों पर तार, रोल्ड/गोल्ड फिल्ड/सोने का मुलम्मा किया हुआ तार और/अथवा संघटक, एन्युमिनियम के ऐनोडी-कृत पार्श्व, नोज पैड, टिप आदि। | 5 80 रु० (केवल पांच रुपये और अरबमी पैसे) प्रति दर्जन। |
| 1929 | सभी अन्य चश्मों के प्लास्टिक फ्रेम/चश्मे/धूप के चश्मे, जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं। | 2 95 रु० (केवल दो रुपये और पचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम। |

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी।

No. DRAWBACK/PN-41/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 4615 and 4616 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

| Sub-Sl. No. | Description of goods | Rate of drawback. |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 4615 | Down rods for electric ceiling fans. | Rs. 0.87 (Paise eighty seven only) per unit having nett weight of 1.6 kgs.) |
| 4616 | Blades for electric ceiling fans | Rs. 3.82 (Rupees three and paise eighty two only per set of three blades having nett weight of 1.6 kgs. |

NOTE.—(1) The rates of drawback in respect of Sub-Serial No. 4615 and 4616 are inclusive of packing materials.

(2) The rates of drawback on 'Down rod for electric ceiling fans' or 'Blades for electric ceiling fans' having weight other than the weight specified against sub-serial Nos. 4615 and 4616 will be proportionately higher or lower than the rates indicated against respective sub-serial numbers according to the weight ascertained.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-41/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधि-सूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है,—

उपक्रमों 4615 और 4616 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रति-स्थापित किया जाएगा :—

| उप क्रमांक | माल का विवरण | प्रतिअदायगी की दर |
|------------|---|---|
| 4615 | छत के विद्युत पंखों के लिए नीचे की ओर मुड़ी हुई छड़ें | 1.6 कि० ग्रा० शुद्ध भार वाली छड़ पर 0.87 रु० (केवल सतासी पैसे) प्रति यूनिट । |
| 4616 | छत के विद्युत पंखों के ब्लेड | 1.6 कि० ग्रा० शुद्ध भार वाले 3 ब्लेड के प्रति सेट पर 3.82 रु० (केवल तीन रुपये बयासी पैसे) प्रति यूनिट |

नोट.—(1) उपक्रम सं० 4615 तथा 4616 के संबंध में प्रतिअदायगी की दरों में पैकिंग सामग्री भी शामिल है ।

- (2) 'छत के विद्युत पखो के लिए नीचे की ओर मुड़ी हुई छड़े अथवा छत के विद्युत पखो के ब्लेड' के लिए जितना भार-उपक्रम सं० 4615 तथा 4616 के सामन उल्लिखित भार में भिन्न है, प्रतिअदायगी की दरे निश्चित किये गये भार के अनुसार अलग अलग उपक्रम मख्याओं के सामने अंकित दरो में आनुपातिक रूप में उच्चतर अथवा निम्नतर होगी।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी।

No. DRAWBACK/PN-42/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/E. No. 602/2/70-MDBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub serial No 5007 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| Sub-Sl. No. | Description of goods | Rate of drawback |
|-------------|--|---|
| 5007 | Sports Light Roadstar Bicycles :— (a) fitted with imported three speed hubs | Rs. 15 25 (Rupee fifteen and paise twenty five only per bicycle plus the amount of import duty paid on the imported 3 speed hubs as determined with reference to the relevant Bill(s) of Entry on a 'First in First Out' basis. |

Provided that the manufacturer/exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs regarding import and duty incidence in respect of an adequate number of 2 speed hubs to cover the export of S.L.R. Bicycles fitted with 3 speed hubs and provided further that the imported 3 speed hubs in respect of which such evidence is produced, have not been—

- similarly co-related to and accounted for against any other previous exportation; and
- previously re-exported as such or in any other form, whether under claim for drawback or otherwise.

NOTE.—The above rate is exclusive of drawback on packing materials, if any, which may be claimed separately under the appropriate 'all industry' rates.

- Other than these fitted with three speed hubs, whether exported in assembled or S.K.D. or C.K.D. condition. Rs. 15 25 (Rupee fifteen and paise twenty five only per Bicycle (exclusive of drawback on packing material which may be claimed separately under appropriate 'all industry' rates of drawback).

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November 1974.

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback)

सं० प्रतिभ्रदायगी/वी०एन०-42/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति भ्रदायगी/वी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है,—

उप-क्रमांक 5007 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

| उप- क्रमांक | माल का विवरण | प्रतिभ्रदायगी की दर |
|----------------|---|---|
| 5007 | स्पोर्ट लाइट रोडस्टर बाइसिकल :— | |
| | (क) आयात किये गये 3 स्पीड हबों से युक्त । | 15.25 रुपये (केवल पन्द्रह रुपये और पच्चीस पैसे) प्रति बाइसिकल; तथा "पहले आओ पहले जाओ" आधार पर संगत आगम-पत्र के अनुसार यथानिर्धारित आयात-शुल्क की रकम जो, आयात किये गये स्पीड हबों पर भ्रदा की गयी । |
| | परन्तु यह तब, जब कि निर्माता/निर्यातकर्ता 3 स्पीड हबों से युक्त स्पोर्ट लाइट रोडस्टर बाइसिकलों के निर्यात को समाविष्ट करने के निमित्त 3 स्पीड हबों की पर्याप्त संख्या के आयात एवं शुल्क के भार के संबंध में सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधान के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करता हो और इसके अनिश्चित यह भी कि आयात किये गये 3 स्पीड हबों को, जिनके बारे में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, | |
| | (i) किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात से वैसे ही सह-सम्बद्ध नहीं किया गया है और उसके लिये हिसाब में नहीं लिया गया है, तथा | |
| | (ii) प्रति भ्रदायगी के दावे सहित अथवा अन्यथा उसी रूप में अथवा किसी अन्य रूप में पहले पुनर्निर्यात नहीं किया गया है । | |
| | टिप्पणी:—उपर्युक्त दर में, पैकिंग सामग्रियों पर दी जाने वाली प्रतिभ्रदायगी, यदि कोई हो, शामिल नहीं है, जिसका दावा समुचित 'सर्व उद्योग' दर के अधीन अलग से किया जा सकता है । | |
| | (ख) 3 स्पीड हबों से युक्त बाइसिकल से भिन्न, चाहे उनका निर्यात संयोजित अथवा एस०के०डी० अथवा सी०के०डी० स्थिति में किया गया हो । | 15.25 रुपये (केवल पन्द्रह रुपये पच्चीस पैसे) प्रति बाइसिकल (जिसमें पैकिंग, सामग्री पर प्रतिभ्रदायगी शामिल नहीं है जिसका दावा प्रतिभ्रदायगी की समुचित 'सर्व उद्योग' दरों के अधीन अलग से किया जा सकता है) । |

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी ।

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिभ्रदायगी) ।

